

August 8, 2025

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001 National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051

Scrip Code: **500325**

Trading Symbol: **RELIANCE**

Dear Sirs,

Sub: Newspaper clippings – "Forty-eighth Annual General Meeting (Post-IPO)" and Information on E-voting" and other related information

The newspaper clippings of the advertisement on the captioned subject published today i.e. August 8, 2025 in the newspapers viz. The Times of India (English), The Economic Times (English), Maharashtra Times (Marathi) and Navbharat Times (Hindi) are enclosed for information and records.

Thanking you

Yours faithfully, For **Reliance Industries Limited**

Savithri Parekh Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: as above

Copy to:

Luxembourg Stock Exchange 35A boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg Singapore Exchange Limited 4 Shenton Way, #02-01 SGX Centre 2, Singapore 068807

HC stays Punjab land-pooling policy till Sept

TIMES NEWS NETWORK

Chandigarh: In a setback to the Bhagwant Mann-led AAP govt, Punjab and Haryana HC on Thursday stayed Punjab's much-publicised Land Pooling Policy, 2025, under which govt planned to collect thousands of acres for developing residential and industrial zones. "We are staying the policy till the

next date of hearing," a divi-sion bench headed by Justice Anupinder Singh Grewal verbally observed. The bench passed the order after the state refused to withdraw the policy.

A copy of the order, however, was not available till the filing of this report. With this, the policy will be stayed till Sept 10, when the case has been fixed for further hea-



ring. The division bench

land pooling policy in Amritsar

passed the order while hea-

ring a petition filed by Gurdeep Singh (72) of Ludhiana district. Punjab govt tried to defend the policy on the grounds that it was voluntary and aimed at curbing illegal colonies. The bench, however, expressed concern over non-availability of provisions regarding farmers, village artisans and landowners who would potentially lose their land.

A TATA PRODUCT



Regd. Office: 3" Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai 400 021 Phone: +91-22-3555 5000 • Fax: +91-22-2204 2268 • E-mail: investor.relations@ril.com

NOTICE FOR THE ATTENTION OF MEMBERS OF THE COMPANY FORTY- EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING (POST-IPO) AND INFORMATION ON E-VOTING

Notice calling the Forty-eighth Annual General Meeting (Post-IPO) ("AGM") of the Company, scheduled to be held in compliance with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Friday, August 29, 2025 at 2:00 p.m. (IST), and the standalone and consolidated audited financial statement for the financial year 2024-25, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on August 07, 2025, electronically, to the members of the Company. Further, a letter providing the web-link, including the exact path, where the Annual Report and the Notice of the AGM for the financial year 2024-25 is available, is being sent to those members whose e-mail address is not registered with the Company / KFin Technologies Limited ("KFinTech"), Company's Registrar and Transfer Agent / Depository Participant(s) / Depositories. The Notice of AGM and the aforesaid documents are available on the Company's website at www.ril.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange

respectively, and on the website of KFInTech, at https://evoting.kfintech.com. The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection by the members from the date of circulation of the Notice of the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to rilagm@ril.com mentioning his / her / its folio number / DP ID and Client ID.

of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com,

Remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of KFinTech as the agency to provide e-voting facility.

Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM. The manner in which (a) persons who become members of the Company after despatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off Date (mentioned herein); (b) members who have forgotten the User ID and Password, can obtain / generate the User ID and Password, has also been provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period: Commencement of remote e-voting: 1:00 p.m. IST on Sunday, August 24, 2025 End of remote e-voting : 5:00 p.m. IST on Thursday, August 28, 2025

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by KFinTech upon expiry

Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically ("Insta Poll") at the AGM.

On the eve of the 144th

We thank our Stakeholders

for their continued patronage.

Only a person, whose name is recorded as on the Cut-off Date, i.e., Friday, August 22, 2025, in the register of members / register of beneficial owners maintained by the Depositories, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through Insta Poll.

Manner of registering / updating e-mail address:

- a) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their e-mail address with the Company, are requested to register / update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company at www.ril.com) duly filled and signed along with requisite supporting documents to KFinTech at Unit: Reliance Industries Limited, Selenium Tower B. Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032.
- b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their e-mail address with their Depository Participant(s), are requested to register / update their e-mail address with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts.

In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the "Help" and "FAQs" sections / E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads" section of KFinTech's website for e-voting:

Members are requested to note the following contact details for addressing queries / grievances relating to e-voting, if any:

Shri V. Balakrishnan, Vice President

KFin Technologies Limited

Unit: Reliance Industries Limited

Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032

E-mail: evoting.ril@kfintech.com

Toll-free No. 1800 309 4001 (from 9:00 a.m. (IST) to 6:00 p.m. (IST) on all working days)

Joining the AGM through VC / OAVM:

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM, through JioEvents, at https://jioevents.jio.com/rilagm. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in Note no. 9 of the Notice of AGM. Members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

> By order of the Board of Directors Savithri Parekh


Place: Mumbai Dated: August 8, 2025


Company Secretary and Compliance Officer

Birth Anniversary of our founder,

Sir Sorabji Pochkhanawala,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India






WATCH NOW



To locate your nearest store and know more (on +91 81473 49242





Iffco Arm to Widen **Footprint in Brazil** with Livestock **Nutrition Foray**

Pranav Varshney

Mumbai: Indian farmers' cooperative giant Iffco is planning to enter the livestock nutrition business in Brazil to capitalise on the South Ameri can country's position as the world's largest beef exporter and a major poultry producer, following its nanofertiliser joint venture there.

We are...planning to expand our innovation in the field of cattle and poultry," said Arunachalam Lakshmanan, managing director of Iffco-Nanoven-

tions (NVPL).

an Iffco subsidiary involved in



research and de velopment and Co will also set up its first production facility in Curitiba, Paraná state of Brazil by

synthesis of various nano-agri inputs. The company will set up its nano-fertili ser production facility in Curi tiba, Paraná state of Brazil, by January 2026 January 2026 Lakshmanan said at the LIDE Brazil India Fo-

rum in Mumbai on Thursday. "Brazil is having a huge cattle population as well as poultry population," he noted. NVPL has developed nanotechnologybased products that "can minimise the usage of antibiotics or any chemicals in poultry farming as well as in cattle farming," he added.

Iffco is currently seeking joint venture partners for its livestock foray, people familiar with the development told ET.

FINAL PROPERTY OF THE PROPERTY

US-based Avana Gets NBFC Licence

Pratik Bhakta

Bengaluru: US-based Avana Companies, which runs a commercial bank in Texas and manages a billion dollars in assets, has secured a non-banking finance company (NBFC) licence from the Reserve Bank of India.

The company has hired Siddharth Purandare, who was previously the head of SME business at Edelweiss Financial Services, as its managing director for India operations.

BITS Pilani Placements Up 11% for Class of '25, Avg Pay Hits ₹22 Lakh

Top recruiters include high frequency trading cos, chipmakers and GCCs

New Delhi: Birla Institute of Technology and Science (BITS), Pilani has seen an 11% year-on-year increase in placements for the class of 2025, with students bagging more offers and higher median and average salary packages from companies across sec-

quency trading firms and global capability centres (GCCs). In all, stu-dents have received 2,379 offers so far across the institute's four campuses in Pilani, Goa, Hyderabad and Dubai. According to G Balasubramanian, chief placement officer, BITS Pilani--India & Dubai, the median salary

tors such as semiconductor, high-fre- annum from ₹17 lakh per annum last year. The average salary has gone up 16% to ₹22 lakh per annum.

The top offer from a high-frequency trading firm, surged 44% year-onyear, he said, without disclosing the name of the firm or the salary package. Several high-frequency trading firms, such as Tower Research, IMC has increased 14% to ₹19.4 lakh per Trading. Quad Eye and AlphaGrep,



visited the campus for final placements, and some offered higher packages than last year.

the same period last year. We have grown by about 11% roughly,"

nuary-June. "One thing that is defi-

nitely happening is that the India Se-

miconductor Mission is now begin-

ning to show its impact," said Rao.

Ramgopal Rao, vice chancellor, BITS Pilani, told ET. BITS Pilani has distinct placement seasons-August-December and Ja-

our students this year compared to ductor companies like Micron, for example, recruiting very aggressive-

ly this year from our campus. Micron extended offers to 51 students at BITS Pilani this year.

In order to prepare its students for placements that are becoming increasingly competitive each year, the institute has intensified its focus on hackathons, coding challenges and certification programmes.

hansgrohe

Our Name is your Guarantee

Please Refer QR code for the complete catalouge



Innovation:

we are constantly developing new technologies for bathrooms and kitchens to meet your requirements for day-to-day life



Designs:

In every bathroom project. Our products consistently receive design awards,

Quality:

Offering our customers the highest quality at all times is a fundamental part of the hansgrohe philosophy.



Services:

- Contactable and reliable
- Informative and involved
- Plan and enjoy

Customer satisfaction has, and always will be, our 60% water saving Shower primary concern.

ForSite Visits and samples, Contact our Project team Mr. Joel Shah: 8828353213 & Mr. Subodh: 8898779102



BHOGILAL

WEST END - VILE PARLE (W) B1, Hem Colony, S.V.Rd., Mumbel 58. www.cbweetend.com comestend@gmail.com, Rakeen 9820092090 Call 022 61523100, Chetan 9820081807

Xclusive - MAHALAXMI



Regd. Office: 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai 400 021 Phone: +91-22-3555 5000 • Fax: +91-22-2204 2268 • E-mail: investor.relations@ril.com

NOTICE FOR THE ATTENTION OF MEMBERS OF THE COMPANY FORTY- EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING (POST-IPO) AND INFORMATION ON E-VOTING

Notice calling the Forty-eighth Annual General Meeting (Post-IPO) ("AGM") of the Company, scheduled to be held in compliance with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Friday, August 29, 2025 at 2:00 p.m. (IST), and the standalone and consolidated audited financial statement for the financial year 2024-25. along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on August 07, 2025, electronically, to the members of the Company. Further, a letter providing the web-link, including the exact path, where the Annual Report and the Notice of the AGM for the financial year 2024-25 is available, is being sent to those members whose e-mail address is not registered with the Company / KFin Technologies Limited ("KFinTech"), Company's Registrar and Transfer Agent / Depository Participant(s) / Depositories. The Notice of AGM and the aforesaid documents are available on the Company's website at www.ril.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of KFInTech, at https://evoting.kfintech.com.

The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection by the members from the date of circulation of the Notice of the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to rilagm@ril.com mentioning his / her / its folio number / DP ID and Client ID.

Remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of KFinTech as the agency to provide e-voting facility.

Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM. The manner in which (a) persons who become members of the Company after despatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off Date (mentioned herein); (b) members who have forgotten the User ID and Password, can obtain / generate the User ID and Password, has also been provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period: Commencement of remote e-voting : 1:00 p.m. IST on Sunday, August 24, 2025 : 5:00 p.m. IST on Thursday, August 28, 2025

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by KFinTech upon expiry of the aforesaid period.

Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically ("Insta Poll") at the AGM.

Toll-free No. 1800 309 4001 (from 9:00 a.m. (IST) to 6:00 p.m. (IST) on all

Only a person, whose name is recorded as on the Cut-off Date, i.e., Friday,

August 22, 2025, in the register of members / register of beneficial owners

maintained by the Depositories, shall be entitled to avail the facility of

a) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated

their e-mail address with the Company, are requested to register / update their

e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of the

Company at www.ril.com) duly filled and signed along with requisite supporting

documents to KFinTech at Unit; Reliance Industries Limited, Selenium Tower B

Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032

updated their e-mail address with their Depository Participant(s), are

requested to register / update their e-mail address with the Depository

b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered /

In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the "Help"

and "FAQs" sections / E-voting user manual available through a dropdown menu

in the 'Downloads' section of KFinTech's website for e-voting:

Members are requested to note the following contact details for addressing

Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,

Participant(s) where they maintain their demat accounts.

remote e-voting or voting through Insta Poll.

Manner of registering / updating e-mail address:

Joining the AGM through VC / OAVM:

queries / grievances relating to e-voting, if any:

Shri V. Balakrishnan, Vice President

Unit: Reliance Industries Limited

E-mail: evoting.ril@kfintech.com

KFin Technologies Limited

Hyderabad 500 032

Place: Mumbai

Dated: August 8, 2025

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM, through JioEvents, at https://jioevents.jio.com/rilagm. The information about logir credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in Note no. 9 of the Notice of AGM. Members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

By order of the Board of Directors


Savithri Parekh Company Secretary and Compliance Officer

www.ril.com

LESS FRICTION. MORE PROGRESS.









Scan the QR code to



Scan the QR code to view view the results on NSE the outcome of board meeting



Scan the QR code to view the financial results

Date :- August 06, 2025

Place : Bengaluru

SKF India Limited

CIN: L29130PN1961PLC213113

Registered Address: Chinchwad, Pune 411033 Maharashtra, India Tel. No.: 91 - 20 66112500 | E-mail: investorIndia@SKF.com | Website: www.skf.com/in FY25-26: Quarter - April 2025 to June 2025

Revenue Growth 5.8% QoQ









PBT Growth -25.2%



STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

Particulars	Quarter Ended June 30, 2025 (Unaudited)	Quarter Ended March 31, 2025 (Unaudited)	Quarter Ended June 30, 2024 (Unaudited)	Year Ended March 31, 2025 (Audited)
Revenue from Operations	12,831.5	12,133.7	12,062.2	49,199.2
Net Profit / (Loss) for the Period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) # ^	1,598.4	2,756.5	2,136.0	7,632.0
Net Profit / (Loss) for the Period Before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items) # ^	1,598.4	2,756.5	2,136.0	7,632.0
Net Profit / (Loss) for the Period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items) #	1,182.1	2,032.8	1,589.3	5,659.1
Total Comprehensive Income for the Period [Comprehensive Profit / (Loss) for the Period (After tax) and Other Comprehensive Income (After tax)]	1,182.1	1,931.7	1,589.3	5,579.0
Equity Share Capital	494.4	494.4	494.4	494.4
Reserves (Excluding Revaluation Reserve as Shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year)				25,485.3
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for Continuing and Discontinued Operations) -				
1. Basic: (Not to be Annualised)	23.9	41.1	32.1	114.5
2. Diluted: (Not to be Annualised)	23.9	41.1	32.1	114.5

[#] No exceptional and/or extra ordinary items in the above results

KEY NUMBERS OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

	Rs in Millio				
Particulars	Quarter Ended June 30, 2025 (Unaudited)	Quarter Ended March 31, 2025 (Unaudited)	Quarter Ended June 30, 2024 (Unaudited)	Year Ended March 31, 2025 (Audited)	
Revenue from Operations	12,831.5	12,133.7	12,062.2	49,199.2	
Net Profit / (Loss) for the Period Before tax	1.602.3	2,751.4	2,137.1	7,631.0	
Net Profit / (Loss) for the Period After Tax	1,186.0	2,027.7	1,590.4	5,658.1	
Total Comprehensive Income for the Period [Comprehensive Profit / (Loss) for the Period (After tax) and Other Comprehensive Income (After tax)]	1,186.0	1,926.6	1,590.4	5,578.0	

a) The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their

Meeting held on August 06, 2025. The above financial results for the quarter (unaudited) ended June 30, 2025 have been reviewed by the statutory auditors of the Comparation of the Cob) The above financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and read with Rules framed thereunder and Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from

c) The Company manufactures bearings and other related components and is of the view that it is a single business segment in accordance with Ind AS-108- Operating Segments' notified pursuant to Companies (Accounting Standards) Rules, 2015.

d) The figures of the last quarter ended March 31, 2025 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and unaudited published year to date figures upto the third quarter of the respective financial years and there are no material adjustments made in the results of the quarter ended March 31, 2025 which pertain

e) The Unaudited consolidated financial results includes financial results of a Wholly Owned Subsidiary and two associates of the Company for the quarter ended June 30, 2025,

f) The Board of Directors of the Company, at its meeting held on 26 December 2024, basis the recommendation of Audit Committee and Independent Directors, approved scheme of arrangements of the Company, SKF India (Industrial) Limited ("SKFIIL") (a wholly owned subsidiary of the Company, which was incorporated on 17 December 2024) and their respective shareholders and creditors, providing for the demerger of the Company's Industrial Business to SKFIIL ("Proposed Transaction") in compliance with sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013. Pursuant to this, the Company has received 'no adverse observations' and 'no objection' from BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, respectively including approval from the shareholders and creditors of the Company. The Proposed Transaction is, inter alia, subject to receipt of requisite approvals from the statutory and regulatory authorities and Hon'ble National Company Law Tribunal

g) The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter ended June 30, 2025 are available on the BSE Limited website (URL: www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited website (URL: www.nseindia.com) and on the Company's website (URL: www.skf.com/in)

Mukund Vasudevan

Managing Director

डिजिटल टच पॅनल आणि

सोप्या ऑपरेशनसाठी प्रीसेट

डिजिटल तापमान आणि

स्वयंपाक पाहण्यासाठी

ओव्हनसह 12 लिटरमध्ये उपलब्ध,

8 लिटर, 6.5 लिटर आणि 4 लिटर

चौकशी: 9582-123-456

मुंबई : राज्याचे परिवहन मंत्री

प्रताप सरनाईक यांनी काही

दिवसांपूर्वीच रॅपिडोवर कारवाई केली

होती. त्यानंतर गुरुवारी प्रो गोविंदाची

घोषणा करताना रॅपिडो या कंपीनचे

प्रायोजकत्व घेतल्याने विरोधकांनी

सरनाईक यांच्यावर टीका केली आहे.

Dry Fruits

THAILAND

विशेष

मंडप

₹६0/-

प्रति व्यक्ती

खिडकीवरील दिवा

कुकिंग मोइस

नारळी पौर्णिमा, गौरी विसर्जनाला सुट्टी

मुंबई : मुंबईत १६ ऑगस्टला होणाऱ्या गोपाळकाल्यानिमित्ताने जाहीर केलेल्या सुद्दीत बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गुरुवारी जाहीर केला. राज्य सरकारने यासंदर्भातील शुद्धीपत्रक जाहीर करून यंदा आज, शुक्रवारी नारळी पौर्णिमा आणि ज्येष्ठा गौरी विसर्जनाच्या निमित्ताने सुट्टी जाहीर केली आहे. यानुसार आता शक्रवारी आणि २ सप्टेंबरला सड़ी असणार आहे.

'महापालिका शाळांच्या

खासगीकरणाचे षडयंत्र' मुंबई : 'मालाडमधील मुंबई पब्लिक स्कूलची मालवणी टाऊनशिप शाळा कोणत्याही परिस्थितीत खासगी संस्थेच्या घशात जाऊ देणार नाही. यासाठी कितीही संघर्ष करावा लागला तरी चालेल', अशी भूमिका मालाड पश्चिमचे आमदार अस्लम शेख यांनी मालवणी शाळेच्या शिक्षक-पालक सभेत गुरुवारी मांडली.

'पंतप्रधानांच्या चुकीच्या धोरणामुळे करवाद'

मुंबई : 'अमेरिकेने भारतावर लादलेले ५० टवके टॅरिफ पंतप्रधान मोदींच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच आहे भारताला लावण्यात आलेले शुल्क हे कोणत्याही देशावर सर्वाधिक शुल्क आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला निराश केले आहे', अशी टीका वंचित बहुजन अध्यक्ष आंबेडकर यांनी गुरुवारी केली आपल्या एक्स अकाऊंटवरून आंबेडकर यांनी मोदीवर टीकास्त्र

कंत्राटी अधिकाऱ्यांमार्फत विभागीय चौकशी

मुंबर्ड : राज्य सरकारी सेवेतील अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी आता कंत्राटी अधिकाऱ्यांमार्फत केली आहे. प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांची पद असल्याने प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. हा आदेश १ सप्टेंबर २०२५ पासून लाग होणार असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी परिपत्रक जारी

महामंडळे जुन्या पानांवरच

अधिवेशनात दोन ते १० वर्षे जुना अहवाल सादर

शालार्थ घोटाळ्याची

२०१२पासून चौकशी



अनुराग कांबळे anurag.kamble@timesofindia.com

मंबर्ड : राज्यातील महामंडळे. विभाग आणि विद्यापीठांचे वार्षिक अहवाल आणि लेख्यांची स्थिती सध्या मागील पानांवरच आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात किमान दोन तर कमाल १० वर्षे जुने वार्षिक अहवाल सादर करण्यात आले. वार्षिक अहवाल उशिरा सादर करताना त्यासोबत विलंबाची कारणेही जोडावी लागतात. प्रशासकीय कारणांबरोबरच यावेळी कोविड, अपुरे प्रशिक्षित मनुष्यबळ, अहवालांच्या भाषांतरासाठी लागणारा वेळ, कॅगकडून विलंबाने मिळणारी पोच अशी कारणे जोडण्यात आली आहेत.

सरकारकडून स्थापन आलेली महामंडळे. विद्यापीठे यांचे वार्षिक अहवाल विधीमंडळाच्या अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात

'अमेरिकेच्या

करवाढीचा अभ्यास'

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

अमेरिकेने वाढवलेल्या करांचा

महाराष्ट्रावर काव परिणाम होक

शकतो, याचा आढावा घेण्यासाठी

मख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या

अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक

झाली. या बैठकीत जीडीपी, रोजगार,

वाणिज्य आदी महत्वाच्या मुह्यांवर

राज्यातील निर्यातप्रधान उद्योगांवर

बाजारातील स्मर्धात्मकतेवर होणारे

परिणाम याचा अध्यास करण्याची

गरज आहे', असे फडणवीस यांनी

उद्योगांचे हित आणि अर्थव्यवस्था

बळकट ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारशी

तातडीने समन्वय साधून आवश्यक

उपाययोजना आखण्यात येतील. या

अनुषंगाने केंद्र सरकारकड्न

मार्गदर्शन घेण्यात येईल', असे

सर सोराबजी पोचरवानावाला

यांच्या 144 व्या जयंती प्रित्यर्थ,

आम्ही आमच्या सर्व भागधारकांचे त्यांच्या

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

सांगितले.

करधारणामुळ

जागतिक

'राज्यातील

प्राथमिक चर्चा करण्यात आली.

'अमेरिकेच्या

यावेळी

आमच सस्थापक

💶 करोनामुळे रखडले वार्षिक

🔳 अपुरे मनुष्यबळ, कॅगच्या विलंबामुळे बसतोय फटका

🔳 भाषांतराला वेळ लागल्यानेही अहवाल-लेखे



येतात. नुकत्याच पार पावसाळी अधिवेशनातही अहवाल आणि वार्षिक लेखे पटलावर ठेवण्यात आले. मात्र, यंदा किमान दोन वर्षे जुने तर काहींचे तब्बल १० वर्षे ज्न्या अहवालाचांही समावेश होतो. अहवालांना सादर करण्यात उशीर झाल्यास त्याच्या विलंबाची कारणेही सोबत जोडणे बंधनकारक असते. यावेळी अहवालासोबत जोडण्यात आलेली विलंबाची कारणे ही अचंबित करणारी आहेत.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

राज्य सरकारला शेकडो कोटींचा

गंडा घालणाऱ्या बनावट शिक्षक आणि

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ

घोटाळ्याची चौकशी सन २०१२

पासून केली जाणार आहे. या

चौकशीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने

पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत

पुलकंडवार यांच्या नेतृत्वाखाली

विशेष चौकशी पथक (एसआयटी)

स्थापन केले आहे. विभागाने गुरुवारी

यासंदर्भातील शासन निर्णय काढला

आहे. एसआयटीला चौकशी अहवाल

तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्यास

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी

नागपुर

आलेल्या

घोटाळ्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते.

या घोटाळ्याची व्याप्ती राज्यभर

असल्याची शंका असल्याने शालेय

जिल्ह्यात

शालार्थ

सांगण्यात आले आहे.

अधिवेशनात

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्टल बेंक ऑफ़ इंडिया

Central Bank of India

अधिकारी, कर्मचारी व्यग्र

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडूनही आर्थिक वर्षाचे लेखे सादर करण्यास पाच वर्षांचा विलंब झाला. वर्ष २०२०-२१ चे लेखे सादर करताना वित्त व लेखा विभागातील बहतांश अधिकारी निवृत्त झाल्याने विलंब झाल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले. वार्षिक अहवाल भाषांतर करण्यात झालेल्या उशिराचेही कारण दिले. महामुंबई मेट्रो संचलन महामंडळाचा २०२२-२३चा अहवाल अधिकारी, कर्मचारी व्यग्र असल्याने उशिराने सादर केल्याचे स्मष्ट केले.

दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ यांचे वर्ष २०१५-१६ ते सन २०१८-१९ वर्षांचे वार्षिक अहवाल सादर करण्यात आले. महामंडळात फक्त १३ नियमित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे मुख्यालयासाठी मंजूर असून त्यातील सहा पदे रिक्त होती. नियमित कर्मचारी वर्ग कमी असल्याने काम वेळेत होणे शवय नसल्याने तसेच लेखापरीक्षणांचे काम देण्यात आलेल्या कंपनीने ते मध्येच

राज्य सरकारकडून

एसआयटीची स्थापना

शिक्षणमंत्री दादाजी भूसे यांनी शालार्थ

आयडी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी

एसआयटी नेमण्याची घोषणा केली

होती. त्यानुसार शालेय शिक्षण

विभागाने त्रिसदस्यीय एसआयटी

नेमली आहे. या चौकशी समितीत

सदस्य म्हणून पोलिस महानिरीक्षक

मनोज शर्मा यांचा समावेश आहे. तर

शिक्षण आयुक्तालयाचे सहसंचालक

हारून आतार हे या समितीचे सदस्य

सचिव आहेत. राज्यातील अपात्र

शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे

शालार्थ प्रणालीत नियमबाह्यरित्या

समाविष्ट करून वेतन अदा करण्यात

आल्याचे सर्वप्रथम नागपुर जिल्ह्यात

उघडकीस आले. त्यापाठोपाठ

नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर,

मुंबईत गैरप्रकार आढळून आले.

सोडनदिल्याने तब्बल २०१५ पासून ते वर्ष २०१८-१९ पर्यंतचे लेखे सादर करण्यास विलंब झाल्याचे स्मध्ट केले

पाच वर्षांनी मांडणी!

महाराष्ट्र माजी महामंडळाच्या वर्ष २०१८-१९चा १७वा वार्षिक अहवालही विलंबाने सादर करण्यात आला त्यासाठी नियंत्रक महालेखापरीक्षकांकडून अहवालावरील भाष्य उशिराने मिळाल्याने वार्षिक अहवाल सादर करण्यास पाच वर्षे उशीर द्याल्याचे मान्य करण्यात आले महाराष्ट्र राज्य मार्ग महामंडळाचे वर्ष २०१९-२० आणि २०२१-२२ वार्षिक लेखांना विलंब होण्यासाठी कोविड आणि ऑक्टोबर २०२१ ते एप्रिल २२ दरम्यान झालेल्या संपाचे कारण देण्यात आले आहे. या कारणांमुळे माहितीचे संकलन करता आले नाही त्यामुळे वार्षिक लेखे एप्रिल २४ मध्ये प्राप्त झाले. मे २०२५ मध्ये संचालक मंडळाच्या बैठकीत अहवालाला मंजुरी मिळाल्यानंतर ते सादर करण्यात आल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

येथे गुरुवारी स्पष्ट केले. देण्यावर सरकार भर देत आहे. समितीचा

कर्जमाफी देणार'

मध्य रेल्वे पीओएच कोचेसच्या टिंबर डेकिंग आणि पीव्हीसी

फ्लोअरिंगचे काम

वर्कशॉप व्यवस्थापकांचे मुंबई - ४०००१९. ई-निविद डब्ल्यूसी/२०३६/२०२५-२६/०६, दिनांक पीओएच ०४.०८.२०२५, कामाचे नावः कोचेसच्या टिंबर डेकिंग आणि क्लोअरिंगचे काम. प्रमाणः दर अनुसूचीनुसार निविदा समाप्ती/उघडण्याची तारीख आणि वेळ: ३०,०८,२०२५, १२:०० वा. पर्यंत, निविदा तपशील आणि निविदा कागदपत्र वेबसाइर ireps.gov.in निविदा केवळ वेबसाइटद्वारं ई-निविदा स्वरुपातच स्विकारली जाईल.

'गरजू शेतकऱ्यांना

कर्जमाफीचा विषय लांबणीवर पडला नसून निवडणूक काळात भाजपने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, ते पूर्ण करणार आणि गरजू व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल', असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी छत्रपती संभाजीनगर

'योग्य शेतकऱ्यांना कर्जमाफी त्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे. ती शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करणार असन त्यानंतर गरज् आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. कर्जमाफी ही 'मेरिट'वर झाली आल्यानंतर कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल', असेही ते



आकर्षक डिस्काउंट योजना













Smart Chef

खरेदी करा: amazon | Flipkart 🔀 | vijuy sules

असल्याचा गंभीर आरोप एवसवर

केला. दरम्यान, हे सर्व आरोप

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी

फेटाळले. वस्तस्थिती न पाहता

चुकीच्या पद्धतीने बदनाम करण्याचा

ASSOCIATES

BCC&

प्रयत्न असल्याचे सरनाईक म्हणाले.

प्रो गोविंदा' प्रायोजकत्वावरून परिवहनमंत्र्यांवर नेम

'ही कारवाई म्हणजे स्टंटचे 'प्रताप'

रॅपिडोची

मिळवली

काँग्रेसचे विधीमंडळातील गटनेते

विजय वडेद्रीवार यांनी एक्सवरून

केली. तर राष्ट्रवादी शपचे रोहित पवार

यांनीही यावरून, शेवटी मांडवली

राखी-पूर्व आणि गणेश चतुर्थी-पूर्व खरेदी धमाकाला अवश्य भेट द्या।

5th India International

Mega Trade Fair

कोराकेंद्र ग्राउंड १, आर. एम. भट्टड रोड,

सर्व ए सी. मंडप बोरिवली (परिचम), मुंबई शेवटचे ४ दिवस

१-११ ऑगस्ट, २०२५ । दुपारी १ ते रात्रौ १०

Reliance Industries Limited

नोंदणीकृत कार्यालयः ३रा मजला, मेकर चेंबर्स ४, २२२, निरमन पॉइंट, मुंबई ४०० ०२५ दुरायनी +९१-२२-३५५५ ५००० • फॅक्स +९१-२२-२२०४ २२६८ • ई-मेल: investor.milationa@ril.com CIN: L17110MH1973PLC019786

कंपनीच्या सदस्यांसाठी सूचना

अट्टेचाळीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (आयपीओ-पश्चात) आणि ई-मतदानासंबंधी माहिती

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने आणि सिक्युरिटीज ॲंग्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जारी केलेल्या लागू. परिपत्रकांची पूर्तता करण्यासाठी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (''**व्हीर्सी'')**/इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांद्वारा ("'ओएक्हीएम'') कंपनीची अङ्गेचाळीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (आयपीओ प्रधात) ("एजीएम") शकवार २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी (भापवेळ) टपारी २:०० वाजता बोलाविजारी सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२४–२५ साठी स्वतंत्र व एकत्रित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, व त्यासोबत संचालक मंडळाचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि त्यासोबत जोडण्यात आठेले इतर दस्तऐवज, कंपनीच्या सदस्यांना ऑगस्ट, २०२५ रोजी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, ज्यांनी कंपनी/केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड ("केफिनटेक"), कंपनीचे रजिस्ट्रार व हस्तांतरण एजंट/डिपॉझिटरी सहभागी/डिपॉझिटरीज यांचेकडे त्यांचे ई–मेल ॲड्रेस नोंदविलेले नाहीत अशा सदस्यांना आर्थिक वर्ष २०२४–२५ चा वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना उपलब्ध असलेल्या वैबलिकचा अनूक पाथ देणारे पत्र पाठविण्यात येत आहे. एजीएमची सूचना आणि वर नमूद करण्यात आलेले दस्तऐवज कंपनीच्या वेबसाईटवर www.ril.com येथे आणि स्टॉक एक्सचेंज म्हणजे बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेज ऑफ इंडिया ("'एनएसई") यांच्या वेबसाईटसवर अनुक्रमे www.basindia.com येथे आणि www.nspindia.com येथे व के फिनटेक यांच्या वेबसाईटवर

एजीएमची सूचना प्रसारित करण्याच्या तारखेपासून एजीएमच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेले दस्तऐवज सदस्यांच्या तपासणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने उपलब्ध आहेत. ज्या सदस्यांना सदर दस्तऐवज तपासून पहायचे असतील त्यांनी त्यांचा/तिचा/त्यांचा फोलिओ क्रमांक/डीपी आयडी आणि क्लायन्ट आयडी नमूद करून rilagm@ril.com येथे ई-मेल पाठवावे.

दूरस्य ई-मतदान आणि एजीएमच्या दरम्यान ई-मतदान:

https://evoting.kfintech.com येथे उपलब्ध आहेत.

कंपनी आपल्या सदस्यांना एजीएममध्ये मंजूर करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (''**ई-मतदान'**') मतदान करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. सदस्य येथे खाली नमूद करण्यात आलेल्या तारखांना दूरस्य पद्धतीने मतदान करू शकतील ("'दूरस्य ई-मतदान"), कंपनीने ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केफिनटेक यांच्या

हिमटिरिअलाईज्ड स्वरूपात, छापील स्वरूपात समभाग धारण करणाऱ्या आणि ज्यांनी त्यांचे ई-मेलचे पत्ते नोंदिवले नाहीत, अशा सदस्यांसाठी दूरस्थ मतदान पद्धतीने मतदान करण्यासह, मतदानाशी संबंधित माहिती आणि सूचना एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आल्या आहेत. (अ) एजीएमची सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर कंपनीची सदस्य बनलेल्या आणि कट-ऑफ तारखेला (येथे नमूद करण्यात आली आहे) सममाग धारण करणाऱ्या व्यक्ती ; (ब) युजर आयडी आणि पासवर्ड विसरलेले सदस्य, यांनी कोणत्या पद्भतीने युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवावे/तथार करावे हे एजीएमच्या

दूरस्थ ई-मतदान सुविधा खालील मतदान कालावधीत उपलब्ध अत्तेल.

दरस्थ ई-मतदान संपण्याची वैळ

दूरस्थ ई-मतदाग सुरू होण्याची वेळ : रविवार, दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२५ रोजी भाप्रवेळ दुपारी ०१:०० वाजता

गुरुवार, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२५ रोजी भाप्रवेक

वरील तारीख व वेळेनंतर दूरस्थ ई–मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही आणि केफिनटेक

दिनांक : ८ ऑगस्ट, २०२५

ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदान पद्भतीने मतदान केलेले नाही असे एजीएमला उपस्थित असलेले सदस्य एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान ("इन्स्टा पोल") करू शकतील.

शुक्रवार, दिनांक २२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी अंतिम मुदतीच्या तारखेला डिपॉझिटरी यांनी ठेवलेल्या सदस्यांचे रजिस्टर/लाभधारक मालकांच्या रजिस्टर मध्ये ज्यांचे नाव नौंदविण्यात आले असेठ अशी व्यक्तीच फक्त दुरुस्य ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेऊ शकतीठ किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होऊ शकतील आणि इन्स्टा पोलद्वारे मतदान करू शकतील.

ई-मेलचा पत्ता नॉदवण्याची / सुधारणा करण्याची पद्धती:

- अ) छापील स्वरूपात समभाग धारण करणाऱ्या सदस्यांना, ज्यांनी कंपनीकडे त्यांच्या ई-मेल पत्त्याची नोंदणी/सुधारणा केली नाही त्यांनी आवश्यक पूरक दस्तऐवजासह योग्य प्रकारे भरलेले आणि स्वाक्षरी केलेले प्रपन्न आयएसआर-५ (जे कंपनीच्या वेबसाईटवर www.ril.com येथे उपलब्ध आहे) केफिनटेक रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांना सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गचीबॉवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुडा, हैदराबाद ५०० ०३२, येथे सादर करून त्यांच्या ई–मेल पत्याची नोंदणी/सुधारणा करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.
- व) ज्यांनी अजून डिपॉझिटरी सहभागी यांच्याकडे त्यांच्या ई-मेल पत्त्याची नोंदणी/सधारणा केली नाही अशा डिमटिरिअलाईज्ड स्वरूपात समगाग धारण करणाऱ्या सदस्यांना डिपॉझिटरी सहमागीकडे त्यांच्या ई-मेल पत्त्याची नोंदणी / सुधारणा करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

ई-गतदानासंबंधी काही शंका असल्यास, सदस्यांनी केफिनटेकची वेबसाईट https://evoting.kfintech.com येथे ई-नतदानासाठी उपलब्ध असलेल्या "डाऊनलोडस" भागात डॉपडाऊन द्वारा उपलब्ध असलेला "हेल्प" आणि "एफएक्पू" भाग/ई-मतदान वापरण्याविश्रयी माहिती पुरतक पहावे.

ई-मतदानासंबंधी काही चौकशी/तक्रार असल्यास, सदस्यांनी खालील संपर्काच्या तपशीलाची नोंद

श्री. की. बालाकिष्णन, उपाध्यक्ष

घेण्याची विनंती करण्यात येत आहे

केफिन टैक्नॉलॉजीज लिगिटेड, यूनिट रिठायन्स इंडस्ट्रीज लिगिटेड सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गचीबॉवली, प्रावनान्शियल डिस्ट्रिक्ट,

नानाक्रमगढा, हैटराबाट ५०० ०३२

ई-मेल: evoting.ril@kfintech.com

टोल फ्री क्रमांक: १८०० ३०९ ४००१ (सर्व कामकाजाचे दिवशी सकाळी २:०० (भाप्रवेळ) ते सायंकाळी ६:०० (भाप्रवेळ) पर्यंत)

व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारा एजीएममध्ये सहभागी होणे:

सदस्य जिओमिट द्वारा https://jioevents.jio.com/rilagm येथे व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारा एजीएमला उपस्थित राहू शकतील. येथे वापरण्याची लॉगइनची माहिती आणि एजीएनला उपस्थित राहण्याचे टप्पे यासंबंधी माहिती एजीएमच्या सूचनेत टिप क्र.९ मध्ये देण्यात आली आहे. ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान केले आहे असे सदस्य एजीएमला उपस्थित राह् शकतील परंतु पुन्हा एजीएममध्ये त्यांचे मतदान करण्यास पात्र नरातील

> संचालक महळाच्या आदेशाने स्वाक्षरी/-साविधी पारेख

कंपनी सेक्रेटरी आणि कंप्लायन्स ऑफिसर

www.ril.com

द्वारा वरील कालावधी संपल्यानंतर दूरस्थ ई-मतदान गाँड्यूल बंद करण्यात येईल www.centralbankofindia.co.in | आम्हाला फॉलो करा 痒 🏿 🗶 📊 💽 Centralbankofindia | आम्हाला मैसेज करा 🚫 7900123123

सततन्या सहयोग आणि विश्वासाकरिता हार्दिक आभारी आहोत. आमच्या विशेष ऑफर्स नवीन बचत आणि चालु रवाते • सेंट क्वीन - विशेषतः महिलांसाठी बनवलेले • सेंट सैलरी - प्रत्येक खात्यासाठी अधिक ऑफर • सेंट व्यापार - तुम्हाला डिजिटली पुढे ठेवते 👩 संपत्ती व्यवस्थापन • एका क्लिकवर, आमच्या संपत्ती व्यवस्थापन उत्पादनांमध्ये प्रवेश करा (सोप्या आणि जलद प्रकारे) जीवन विमा, सामान्य विमा, म्युच्युअल फंड, **ਭੀਸੱਟ**, एसआयपी 📵 महिला सक्षमीकरण • सेंट गृह लक्ष्मी • सेंट क्वीन • सेंट ईवी 2 व्हीलर • स्टैंड अप इंडिया संपूर्ण भारतात 90 समर्पित महिला शाखा आकर्षक आणि सुविधाजनक रिटेल आणि एमएसएमई कर्ज


बाल तस्करी का भंडाफोड़, 2 आरोपी अरेस्ट

■ NBT रिपोर्ट मुंबई: शिवाजी नगर पुलिस ने बाल तस्करी के एक गंभीर मामले का खुलासा करते हुए छह दिन के एक नवजात

छह दिन के बच्चे को 5.5 लाख रुपये में बिकने से बचाया गया

शिश को 5.5 लाख रुपये में बिकने से बचा लिया है। इस मामले में 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबिक मुख्य आरोपी समीर उर्फ नबील शेख की तलाश

जारी है। ठाणे के सामाजिक कार्यकर्ता और उनकी को बताया था। इसके बाद भेष बदलकर एक



सहयोगी ने इस संबंध में जानकारी मिलने पर पुलिस

ऑपरेशन की योजना बनाई गई। 6 अगस्त की. आरोपीं ने एक बालक को 5.5 लाख रुपये में बेचने की पेशकश की और जल्द डील पूरी करने का दबाव बनाया। तय स्थान पर दो महिलाएं जब आई. तो पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा । गिरफ्तार आरोपी महिलाओं की पहचान नाजिमा असलम शेख और फातिमा मेहमूद अली शेख के रूप में हुई है। नाजिमा ने कहा कि शिशु उसे समीर ने सौंपा था और 50,000 रुपये की अग्रिम राशि पहले ही मिल चकी थी. जिसे जैविक माता-पिता और अन्य लोगों में बांटने की योजना थी।

दो मोबाइल फोन जब्त

पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बाल कल्याण अधिकारियों को सौंप दिया है। नाजिमा से दो मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। समीर के साथ-साथ शिशु के माता-पिता की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने बाल तस्करी, आपराधिक साजिश और नाबालिगों की बिक्री से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

GTअस्पताल में मौत, परिजन का हंगामा

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई: एक 22 वर्षीय यवक की जीटी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्य के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजन का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते युवक की मौत हुई है।

जीटी अस्पताल के डीन डॉ. जितेंद्र संकपाल ने बताया कि युवक की पिछले 4 से 5 दिनों से तबियत खराब थी। वह डिस्पेंसरी से इलाज करवा रहा था। अस्पताल लाया गया। उसकी रिपोर्ट सब बुधवार को तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद तड़के 3 बजे के करीब उसे जीटी होती चली गई उसे आईसीयू में शिफ्ट



असामान्य थी, उसकी तबीयत खराब

उसका प्लेटलेट्स 12000 तक पहुंच गया था। उसे रक्तस्व हुआ और बुधवार देर शाम उसकी मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि इलाज में कोई भी लापरवाही नहीं बस्ती गई है। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि जेजे अस्पताल में डॉक्टरों की कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर लिखे जाने तक जांच जारी थी।

महिलाओं से बदतमीजी से बात करने पर की हत्या

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई : तिलक नगर में बुधवार को 18 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात एक पुराने विवाद से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें आरोपी को ऑटो रिक्शा में अपनी महिला मित्रों से बातचीत करने पर टोका

घटना लोकमान्य तिलक चौक क्षेत्र में शाम को हुई। करीब एक हफ्ते पहले, एक युवक अपनी दो महिला मित्रों के साथ ऑटो में बातचीत कर रहा था। उसी दौरान युवक वहां आया और आरोपी से झगड़ा करने लगा। उसने कथित रूप से न सिर्फ गाली-गलीज की, बल्कि महिला मित्रों से भी दर्व्यवहार किया। इससे नाराज आरोपी युवक ने अपने दो साथियों के साथ बदला लेने की योजना बनाई। बुधवार को तीनों ने मिलकर युवक से मारपीट की और चाकू निकालकर सीने पर वार कर दिया।

सिंजारे का कार्यक्रम संपन्न



■ NBT रिपोर्ट, मुंबई : श्रीमाली महिला मंडल द्वारा कजली तीज (सातुड़ी) तीज का सिंजारे का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंजु लोढा ने काव्यात्मक भाषा में त्योहार का महत्व बताकर सबको

मंत्र मग्ध कर दिया। सूत्रधार हेम माला ने बताया कि इस तरह के आयोजन में महिलाए खुद के लिए समय निकालकर यहां सजधज कर सोलह श्रुंगार करके आती है और नई कर्जा से भर जाती है। कार्यक्रम में संचालक संध्या दवे, वंदना ठाकुर, मनीषा जोशी, सुनीता दवे, कोमल ठाकुर, सीमा चंदावत, भावना व्यास समेत अन्य मौजूद थे।



Reliance

Industries Limited

रिजस्टर्ड कार्योलयः इरी मंज़िल, नेकर चैम्बर्स ४, २२२, नरीमन पॉइंट, मुंबई ४०० ०२९ दुरावती +९१-२२-३५५५ ५००० • फैक्स: +९१-२२-२२०४ २२६८ • ई-मेल: investor.relations@ril.com CIN: L17110MH1973PLC019786

कंपनी के सदस्यों के लिए सूचना अड़तालीसवीं वार्षिक आम बैठक (आईपीओ-पश्चात) और ई-वोटिंग पर सूचना

कॉमॉरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित होने वाली कंपनी की अङ्तालीसवीं वार्षिक आम बैठक (आईपीओ-पश्चात), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से, शुक्रवार, २९ अगस्त, २०२५ को (भारतीय समयानुसार) दोपहर २:०० वजे ("एजीएम") बलाने की सचना और वित्तीय वर्ष २०२४-२५ के लिए एकल और संगेकित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और यहां संलग्न करने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ. अनस्त, २०२५ को डलेक्टॉनिक रूप से कंपनी सदस्यों को भेजे गए हैं। इसके अलावा, वेब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र, सटीक पथ सहित, जहां वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय वर्ष २०२४-२५ के लिए एजीएम की सूचना उपलब्ध है, उन सदस्यों को गंजा जा रहा है जिनका ई-मेल पता कंपनी/केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिनटेक"), कंपनी के रजिस्टार और टांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिमागी (यों)/ डिपॉजिटरी में पंजीकृत नहीं है। एजीएम की सूचना और उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.ril.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, यानी बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("'एनएसई") क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और केफिनटेक की वेबसाइट, https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध हैं।

एजीएम की सचना में संदर्गित दस्तावेज एजीएम की सचना के प्रचलन की तारीख से सदस्यों दारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हैं। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छक सदस्य rilagm@ril.com पर अपना फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए ई-मेल मेज सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग:

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (''ई-**बोटिंग**'') द्वारा एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य अपना वोट यहां नीचे दी गई तारीखों पर दूर से भी डाल सकतं हैं ("रिपोट ई-वोटिंग") । कंजनी ने ई-बोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं।

मतदान के तरीके के बारे में सूचना और निर्देश, जिसमें शामिल है डीमैटीरियलाइज्ड मोड. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा दरस्थ रूप से मतदान करना और सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है उन्हें यह एजीएम की सूचना में दिया गया है। वह तरीका जिसमें (अ) व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बने हैं और कट-ऑफ तिथि (यहां उद्विखित) को शैयर धारण किए हैं; (ब) सदस्य जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर/उत्पन्न कर सकते हैं एजीएम के नोटिस में भी यही प्रावधान किया

दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित वोटिंग अवधि के दौरान उपलब्ध होगी.

दूरस्थ ई-वोटिंग की शुरुआत : रविवार, २४ अगस्त, २०२५ को भारतीय सम्यानुसार दोपहर १:०० क्जे

दुरस्थ ई-वॉटिंग का अंत गुरुवार, २८ अगस्त, २०२५ को भारतीय समयानुसार शाम ५:०० बजे

पूर्वोक्त तिथि और समय के बाद दूरस्थ ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और दूरस्थ ई-वोटिंग स्थान : पुंबई मॉड्यूल केफिनटेक द्वारा पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर अक्षम कर दिया जाएगा। दिनांक : ८ अगस्त, २०२५

एजीएम में माग लैने वाले सदस्य जिन्होंने रिभोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं ढाला है, वे एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक पतदान ("इंस्टा पोत") कर सकेंगे।

केवल वह व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, यानी शुक्रवार, २२ अगस्त, २०२५ को विपॉजिटरी द्वारा बनाए एए सहकों के रजिस्टर / जायकारी स्वत्वाधिकारियों के रजिस्टर में टर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने और इंस्टा पोल के माध्यम से मतदान करने का

ई-मेल पता पंजीकृत / अद्यतन करने का तरीका:

- अ) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी में अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे विधिवत भरा और हस्ताश्वरित फॉर्म आईएसआर-१ (कंपनी की वेबसाइट www.ril.com पर उपलब्ध) के साध आवश्यक सहायक दस्तावेजों सहित केफिलटेक रिलायंस इंडस्टीज लिपिटेड को सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचीबावली, फाइनैन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद ५०० ०३२ में जमा कर अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें।
- डीमैटीरियलाइण्ड मोड में शैयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्(स) के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्र(स) में पंजीकृत/अद्यतन करें, जहां वे अपने डीमैट खाते

ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न हो सदस्य के फिनटेक की वेबसाइट: https://evoting.kfintech.com के "हाजनतीह" सेक्शन में ड्रॉपडाउन मैनू के माध्यम से "हेल्प" और एफएक्यू सेक्शन/ई-वोटिंग युजर मैनुअल देख सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि यदि ई-वोटिंग से संबद्ध कोई, प्रश्न/शिकायत हों तो उनके समाधान के लिए निम्नलिखित संपर्क विवरणों पर ध्यान दें:

श्री वी. बालाक्रिष्णन्, उपाध्यक्ष

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

युनिट: रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचीबावली, फाइनैन्शियल डिस्ट्रिक्ट,

नानाक्रमगुडा, हैदराबाद ५०० ०३२

ई-मेल: evoting.ril@kfintech.com

टोल फ्री नंबर: १८०० ३०९ ४००१ (सभी कार्य दिवसों में सुबह ९:०० बजे से शाम ६:०० बजे तक)

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होना:

सटस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से, जियोमीट से, https://jioevents.jio.com/rilagm पर एजीएम में भाग ले सकेंगे। उपयोग किए जाने वाले लॉगिन क्रेडेंशियल के बारे में जानकारी और एजीएम में भाग लेने के लिए अपनाए जाने वाले चरणों को एजीएम की नौटिस के नोट नं. ९ में समझाया गया है। रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन एजीएम में अपना बौट दोबारा डालने के पात्र नहीं होंगे।

> निदेशक मंडल के आदेश से हस्ताक्षर/-साविश्री पारेख कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

ENERGY FOR EVER (A Navratna CPSE)

38वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष महोदय के संदेश का अंश

चित्र दिलगारको

तीव्रता से सतता की ओर बढ़ते विश्व में, आपकी कंपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है, परिवर्तन को गति एवं दिशा प्रदान कर रही है और हरित वित्तपोषण के भविष्य को नया आकार दे रही है ।

38वीं वार्षिक रिपोर्ट का अनावरण करते हुए, हम एक वर्ष के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का वर्णन करने से कहीं ज्यादा; हम नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए एक बड़े गंभीर मिशन से प्रेरित एक यात्रा के बारे में प्रकाश डाल रहे हैं। अपनी प्रगति के महत्व को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले इसे वैश्विक परिवर्तन के नज़िए से देखना होगा - जहाँ बदलती जलवायु प्राथमिकताएँ, नीतिगत विकास और तकनीकी प्रगति हमारे उद्योग जगत की रूपरेखा को नया आकार दे रही है।

इरेडा के वित्तीय एवं परिचालन प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएँ

गजनत व्यावसायिक वृद्धि और लाभप्रदता वर्ष 2025 में, आपकी कंपनी ने अब तक का सर्वाधिक वार्षिक ऋण बुक संस्वीकति संवितरण लाभ और नेटवर्थ प्राप्त किया। निम्नलिखित स्नैपशॉट इस असाधारण प्रदर्शन को दर्शाता है:

- सकल ऋष बुक: क्तिय वर्ष 24 में ₹59,698 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 25 में ₹76,282 करोड़ (28% की वृद्धि)
- ऋण संस्वीकृति. वित्तीय वर्ष 24 में ₹37,354 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 25 में १४७ ४५३ करोड़ (27% की वटि) ऋण संवितरणः विलीय वर्ष 24 में ₹25,089 करोड़ की तुलना में विलीश वर्ष
- 25 में ₹30 168 करोड़ (20% की विदे) कर पश्थात लाम: वितीय वर्ष 24 में र 1,252 करोड़ की तुलना में वितीय वर्ष
- 25 में ₹1,699 करोड़ (36% की वृद्धि) नेटवर्ध: वित्तीय वर्ष 24 में ₹8.559 करोड़ की तलना में वित्तीय वर्ष 25 में

र 10,266 करोड़ (20% की वृद्धि) 31 मार्च, 2025 के अनुसार, आपकी कंपनी ने संचयी रूप से ₹2,37,916 करोड़ संस्वीकृत किए हैं और राचयी रूप से १1,56,085 करोड़ संवितरित किए

• वित्तीय वर्ष 2015 से प्राप्त सरवयी संवितरणों का ~89% और संघयी

संस्वीकृतियों का ~87%, और; • वित्तीय वर्ष 2021 से प्राप्त संचयी संवितरणों का ~60% और संचयी संस्वीकृतियों का ~59% है

प्रमुख प्रदर्शन विशेषताएँ मजबूत वित्तीय परिणाम देने के अलावा, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान कई रणनीतिक और परिचालन संबंधी मील का पत्थर प्राप्त की है । नीचे दी गई विशेषताएँ भारत के हरित ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के निरंतर नेतृत्व को दर्शाती हैं।

लोक उद्यम विभाग द्वारा अनुसूची 'क' सीपीएसई से प्रतिष्ठित 'नवरत्न' का दर्जा पदान करना आपकी कंपनी को 26 अप्रैल 2024 को नवरत्न सीपीएसई के रूप में मान्यता दी गई, जोकि हमारी वित्तीय नजबूती, परिचालन उत्कृष्टता और रणनीतिक विजन को दर्शाता है। यह दर्जा आपकी कंपनी को अपने व्यावसाधिक लक्ष्मी और महत्वाकांक्षाओं को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता है, जोकि बदले में नदीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक उत्तरदायी समर्थन

प्रदान करेगा। दिसंबर 2024 के दौरान बाजार पूंजीकरण के आधार पर इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा देश के शीर्ष 5 सम्पत्ति शुजनकर्ताओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त करना

आपकी कंपनी को इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा नवंबर 2023 और लवंबर 2024 के बीच 215% वार्षिक शेयरधारक रिटर्न के साथ भारत के दूसरे सबसे अधिक सम्पत्ति सृजनकर्ता स्टॉक के रूप में गान्यता दी गई है। उल्लेखनीय है कि आपकी कंपनी इस प्रतिष्टित सची में शामिल होने वाली एकमान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, जोकि इसके असाधारण प्रदर्शन और शेयरधारक मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अविषक्षा का बताता है। रैं50 करोड़ से अधिक बाजार पूंजीकरण वाले एनएसई और बीएसई सूचीबद्ध बैंकों और एनबीएफसी के बीच लेखापरीक्षित वार्षिक और तिमाही वित्तीय परिणामों का सबसे तेज प्रकाशन

आपकी कंपनी ने अपने वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (वित्तीय वर्ष 2025) केवल १५ दिनों के भीतर और अपने तिमाही लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम ९ दिनों के भीतर (वित्तीय वर्ष 2025 की तीरारी तिसाही) प्रकाशित करके एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। यह 31 मार्च, 2025 तक ₹50 करोड़ से अधिक बाजार पूजीकरण वाले भारत के एनएसई और बीएसई दोनों सवीबद्ध बैंकों और एनबीएफर्सी के बीच लेखापरीक्षित वार्षिक परिणामों का सबसे तेज प्रकाशन है। वित्तीय वर्ष 2019 के 60 दिनों से वित्तीय वर्ष 2025 में परिणाम प्रकाशित करने में लगने वाले समय की घटाकर 15 दिन करना आपकी कंपनी द्वारा प्रक्रिया दक्षता, कॉर्पोरेट सुशासन और पारदर्शिता पर दिए जा रहे बल को दर्शाता है।

विदेशी मुद्रा में ऋण वित्तपोषण के लिए गिपट सिटी, गांधीनगर में कार्यालय खोलना

वित्तीय वर्ष 2025 में, आपकी कंपनी को आईएफएसर्सा गिपट सिटी (गुजरात) स्थित अपनी सहायक कंपनी के लिए आईएफएससीए से अंतिम पंजीकरण प्राप्त हुआ, जोकि विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करने, प्राकृतिक हैजिंग की सुविधा प्रदान



करने और हरित हाइझोजन एवं उसके व्युत्पन्नों सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण गरियोजनाओं (मॉड्यूल, सेल, वेफर्स, टर्बाइन, इलेक्ट्रोलाइजर, आदि) के लिए विश्वपोषण लागत में उल्लेखनीय रूप से कमी लाने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त करेगी। यह रणनीतिक पहल सतत विकास के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को आगे बढाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका

एस एंड पी ग्लोबल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग और धरेलू एजें सियों द्वारा एएए (स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई

वितीय वर्ष 2025 में, आपकी कंपनी ने एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स से रिधर आउटलुक के साथ बीबीबी की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करके एक महत्त्वपूर्ण जगलिश प्राप्त की है। यह रेटिंग भारत की सॉवरेन रेटिंग के अनुरूप है, जोकि आपकी कंपनी की मजबूत वितीय स्थिति और देश के नवीकरणीग ऊर्जा लक्ष्यों को और आगे बढ़ाने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी की ऋण-योग्यता को केयर रेटिंग्स हारा उसकी घरेलू क्रेडिट रेटिंग को एएए (स्थिर) में अपग्रेड करके मान्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, एक्यूट रेटिंग्स एड रिसर्च, और ब्रिकवर्क रेटिंग्स राहित प्रमुख घरेलू क्रेडिट एजेंसियों से अपनी एएए (स्थिर) रेटिंग बनाए रखी। ये शीर्ष-रतरीय रेटिंग्स आपकी कंपनी के निरंतर प्रदर्शन, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक महत्व

और वितीय उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एमएनआरई के साथ समझौता ज्ञापन के तहत "उत्कृष्ट" रेटिंग

आपकी कंपनी द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा नंत्रलय (एमएनआरई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें वार्डिक वित्तीय और परिचालन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे वित्तीय दर्ष 24 के लिए, लगातार बौधे वर्ष, 'उत्कृष्ट' रेटिंग मिली है, जोकि इसके मजबूत प्रदर्शन और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 25 के प्रदर्शन के आधार पर सरकारी मल्यांकन के अधीन, इसी तरह की उत्कष्ट रेटिंग मिलने की उम्मीद है सीबीआईपी पुरस्कार, सार्वजिंक क्षेत्र के उद्यम उत्कृष्टता पुरस्कार और एमएनआरई द्वारा सम्मान

वित्तीय वर्ष 2025 में, आपकी कपनी को देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी) द्वारा प्रतिष्वित सीनीआईपी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इरेंडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक की नवींकरणीय ऊर्जी विकास की आगे बढ़ाने के लिए उनके अनुकरणीय नेतृत्व के लिए सीबीआईपी व्यक्तिगत पुरस्कार 2024 सं भी सम्मानित किया गया।

इसके अलावा, आपकी कंपनी को 14ने पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कारों उसके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया कोंपेरिट प्रशासन और सीएसआर एवं सतता श्रेणियों में स्वर्ण पदक और परिवालन प्रदर्शन उत्कृष्टता के लिए रजत पदक जीताः जोकि इसकी मजबूत संस्थागत सत्यनिष्ठा, सामाजिक उत्तरदायित्व और परिवालन नेतृत्व का प्रमाण है आपकी कंपनी को 16 सितंबर 2024 को अक्षय ऊर्जा इन्वेस्ट 2024 में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी एनबीएफसी के रूप में, भारत की 200 गीमावाट गैर-जीवाश्म स्थापित हामता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण योगदान के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रलय द्वारा भी सम्मानित किया गया।

प्रमुख परिचालन पहलों का शुभारंग उमरते नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए उत्प्रेरक नेतृत्व

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, आपकी कंपनी ने इथेनॉल, ग्रीन अमोनिया, पंप स्टोरेज हाइड्रोपावर, स्मार्ट मीटर, सीर उपकरण विनिर्माण परियोजनाओं के साथ-साथ सोलर रूफटॉप और पीएम कसम के अंतर्गत विकेंद्रीळत उत्पादन परियोजनाओं के लिए बाजार में सबसे पहले समर्थन प्रदान करके उभरती हरित प्रौद्योगिकियों को उत्प्रेरक नेतृत्व प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है । इसके अलावा, अक्षय ऊर्जा इन्चेस्ट 2024 सम्मेलन में. आपकी कंपनी ने भारत

के नवीकरणीय ऊजा क्षेत्र के तीव विकास को समर्थन देने के लिए 2030 तक रेंड

कर बचाएं, हरित भारत को संवारें वित्त मंत्रालय से इरेडा को 54ईसी पूंजीगत लाभ कर एट बॉन्ड्स जारी करने की स्वीकृति आने

लाख करोड़ के ऋण क्रियोषण करने का संकल्प लिया। एमएनआरई की प्रमुख योजनाओं के लिए कार्यान्वयन सहायता प्रदान

आपकी कंपनी नवीकरणीय ऊजा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतियाँ के विकास और कार्यान्वयन के लिए शामिल रही है। इसके अलावा, आपकी कंपनी निम्नलिखित

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन ट्रांच-। के अंतर्गत उच्च दक्षता वाले सीर पीवी

मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम ट्राच-III के अंतर्गत ग्रिड-संबद्ध सीर पीवी परियोजनाओं की स्थापना हेतु

राष्ट्रीय जैय कर्जा कार्यक्रम, चरण 1 के अंतर्गत शहरी, औद्योगिक और बे अपशिष्टों /अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम

कृषि अपाशक्दा/अवसम्भ स कुजा पर कार्या सौर एवं पवन चत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) योजनाएँ उद्यारकर्ता के अनुभव को बेहतर बनाने की पहल आपकी कंपनी ने तिमाही हितचारक सहमागिता को रारथागत बनाकर और उधारकतों के अनुभव को सुव्यवस्थित करके प्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के बारे में अपना जोर दिया है। आयेदन से लेकर संवितरण तक, पूरी तरह से ब्रिजिटल, कागज़ रहित ऋण पारिस्थितिकी प्रणाली के साथ, आपकी कंपनी ने हरित वित्तपोषण के लिए व्यवसाय करने के लिए आसानी को नए सिरे से परिभाषित

मानव संसाधन के विकास की पहल

विभिन्न पहल की है।

आपकी कंपनी निरतर सीखने और विकास के बारे में जोर देती है। विर्ती और नवीन वित्तीय समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया

स्वारम्थ-कल्याण और प्रेरणाः आपकी कंपनी ने नियमित स्वारम्थ-कल्याण शिविरों के साथ-साथ दैनिक ध्यान और योग सत्रों का आयोजन करके कर्मवारियों के स्वास्थ्य -कल्याण को लगातार प्राथमिकता दी है।

विविधता और समावेशनः आपकी कंपनी विविधता और समावेशन के प्रति दृढ प्रतिबद्धता रखती है। आपकी कंपनी के कार्यबल में महिलाओं की संख्या 28.3% है जोकि वर्ष 2023-24 की पीर्ड सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनसार सीपीएसई में महिला कर्मचारियों के औरात 9.5% का लगभग तीन गुना है। इसके अलावा, आपकी कंपनी सामाजिक समता के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए उचित प्रतिनिधित्व और अवसर सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के निर्देशों को सक्रिय रूप से लागू करती है। मर्ती से लेकर करियर विकास तक, समावेशी प्रतिमा रणनीतियों के माध्यम से, आपकी कंपनी एक ऐसी

कॉर्पोरेट सुशासन के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा दैना आपकी कंपनी सत्यनिचा, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित एक प्रशासनिक दांचे को कायम रखती है – जोकि हर रतर पर नैतिक आधरण और परिचालन दक्षता को सुनिश्चित करता है। कपनी अधिनियम, सेबी एलओडीआर विनियमों, डीपीई दिशानिदेशों, सचिवीय मानकों और अन्य प्रासंगिक दिशानिदेशों

ने अपने वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को केवल 15 दिनों के

वाला बेहतरीन निवेश विकल्प।

प्रमुख एसएनआरई पौजनाओं के लिए कार्यान्यम एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है:

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम योजना चरण 🛚

किया है, और अपनी गति, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए लगातार सराहना

आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारी आधार की बढ़ाने और विकसित करने के लिए

विस्तारः अपनी मजबूत विकास गति के अनुरूप, आपकी कपनी ने अपने कार्यबल में लगातार वृद्धि की है और वितीय वर्ष 26 में 60 से अधिक कर्मवारियों को शामिल करने की गोजना बना रही है। 31 मार्च 2025 तक, आपकी कंपनी के कुल कर्मचारीगण 166 थे. जिसमें बोर्ड स्तर के अधिकारीगण शामिल नहीं थे।

विकासः तेजी से विकस्ति हो रहे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को देखते हुए. वर्ष 25 में संगतन ने अपने कर्मवारियों के लिए लगभग ~1523 नानव-दिवसों का प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसमें उभरती प्रौद्योगिकयों

कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देती है जोकि विविधतापूर्ण, सम्मानजनक और सभी के लिए समान अवसर पर आधारित है।

का पूर्णतः अनुपालन करते हुए, आपकी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए उच्चतम मानवंडों के अनुरूप निरंतर कार्य करती है। प्रकटीकरण और पारदर्शिता के बारे में अग्रणी भूमिका निमाते हुए, आपकी कंपनी

मींतर प्रकाशित करके एक नया उद्योग मानक स्थापित किया है, जोकि सेश्री की 60–दिन की अनिवार्यता से कहीं पहले है, इस प्रकार, यह ₹50 करोड़ से अधिक बाजार पूंजीकरण वाली एनएसई और बीएसई में सूचीबद बैंकिंग और एनबीएफरी कंपनियों में सबसे पहले हैं। यह उपलब्धि आपकी कंपनी की उत्कृष्ट सुशासन व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जोकि मजबूत आंतरिक प्रणालियों और डिजिटल दक्षता द्वारा संचालित है। एक सत्तत मविष्य के लिए प्रभावशाली कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

अपने हरित वित्तपोषण के मिशन पर आधारित, आपकी कंपनी समावेशी और सतत विकास के उत्पेरक के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाती है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2025 की सीएसआर पहलों ने स्वास्थ्य सेवा और पोषण, शिक्षा एवं युवा, तथा नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्थिरता जैसे उच्च-प्रभावी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे इसके स्वच्छ ऊर्जा अधिदेश का सामाजिक मृत्य और भी अधिक बद गया। वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, आपकी कंपनी ने समावेशी और सतत विकास के प्रति

अक्षय ऊर्जा के लिए जिम्मेदार



अपनी प्रतिब्रद्धता के अनुरूप सीएसआर पहलों का एक विविध पोर्टफोलियों शुरू किया। इन प्रमुख परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश में विकलाग बच्चों की सेवा करने वाली मोबाइल मेडिकल वैन के लिए सहायता, राजस्थान में आईसीय से संस्थितित एम्बर्नेस की खरीद और अस्पतालों एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए

चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान शामिल था। शिक्षा और यदा सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपकी कंपनी ने सिलवास्य में एक सैनिक स्कूल के विकास में सहयोग दिया और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना

के अंतर्गत 50 प्रशिषुओं को प्रायोजित किया। समावेशी हरित गतिशीलता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर को कंपनी द्वारा पूर्व में दान किए गए 10 बैटरी वालित वाहनों के संवालन और रखरखाव के लिए वितीय सहायता प्रदान की और इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और परिसर में आने वाले तुकों के लाभ के लिए गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को 4 बैटरी चालित वाहन दान किए।

नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता पर अपने मुख्य फोक्स को सुदृढ करते हुए, आपकी कंपनी ने उत्तर प्रदेश के आंगनकाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य सुविधाओं में सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के लिए धन महैया कराया । वित्त वर्ष 2025 के दौरान, आपकी कंपनी ने 13 परियोजनाओं के लिए कुल

वितरित किए. जिसमें पिछले वर्षों के अप्रयक्त खातों से प्राप्त राशि और वित वर्ष 2025 के प्रशासनिक व्यय शामिल हैं। परिचालनों के कार्बन फटप्रिंट को कम करने की पहल देश के डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों का समर्थन करने के अलाया, आपकी कंपनी अपने परिवालनों में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। आपकी

कंपनी केरल के कासरगोड़ में 50 मेगावाट के सौर संयंत्र का स्वामित्व और

₹24.36 करोड़ (प्रशासनिक व्यय सहित) स्वीकृत किए और कुल ₹7.82 करोड़

संचालन करती है, जिसके द्वारा लगभग 70,539 मेगावाट घंटे नवीकरणीय कर्जा का उत्पादन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वितीय वर्ष 2025 में लगभग 59,958 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₃) की कभी आई।

इरेंडा के लिए समग्र रणनीति

भारत की अग्रणी, विशुद्ध रूप से हरित वित्तपोषण संस्थान के रूप में, आपकी कंपनी देश के खबर कर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए एक साइसिक भविष्य के लिए रणनीति तैयार कर रही है। अनुकूलित वित्तीय समाधान, प्रतिस्पर्धी ऋण और गहन क्षेत्रीय विशेषज्ञता प्रदान करके, आपकी कंपनी वर्ष 2030 तक भारत के 500 गीगावाट गैर-जीवारम ईधन लक्ष्य और इसके व्यापक नेट-जीरो विजन को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रमाणित और उभरती हुई, दोनों ही तकनीकों को संशक्त बना रही है। नवीकरणीय कर्जा क्षेत्र में गति को बढ़ावा देगा

आपकी कंपनी सीर, पवन, जल विद्युत, बायोगास और जैव ईंधन जैसे मुख्यधारा के क्षेत्रों में अग्रणी बनी हुई है, और वर्ष 2030 तक बारत सरकार के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंघन लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रमुख रतम रूप में है। अनुकृतित वित्तीय साधनों, प्रतिस्पर्धी दरों और नवीन उत्पादों के माध्यम से आपकी कंपनी न केवल परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रही है – बल्कि बड़े पैमाने पर भारत में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी गति दे रही है।

भविष्य की तकनीकों का समर्थन परिपद्य बाज़ारों से आगे बढ़कर, आपकी कंपनी रणनीतिक रूप से उभरते समाधानों में विस्तार कर रही है जोकि हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन अपतटीय पवन कर्जा, बैटरी भंडारण, पंप हाइड्रो, रूफटींप सौर कर्जा, स्मार्ट मीटरिंग, हरित गतिशीलता और हरित ऊर्जा गलियारे आदि ऊर्जा के भविष्य को आकार दे रहे है। एक समर्पित टीम इन परियोजनाओं का सक्रिय रूप से मृल्यांकन और वित्तपोषण कर रही है, जबकि आंतरिक क्षमता निर्माण यह सुनिश्चित करता है कि हमारे लोग इन उभरते क्षेत्रों में नेतृत्व के लिए तैयार हों।

गिफ्ट सिटी के माध्यम से वैश्विक पहुँच का विस्तार गांधीनगर रिधत गिफ्ट सिटी में अपने कार्यालय की स्थापना करने के साथ आपकी कंपनी अब विदेशी मुद्रा—आधारित ऋण प्रदान करती है, जिससे नवींकरणीय विनिर्माण और हरित हाङ्ड्रोजन निर्यात जैसे वैश्विक रूप से जुड़े उद्योगों के लिए प्राकृतिक हेजिंग संभव हो पाती है। यह प्लेटफॉर्म आपकी कंपनी को वित्तपोषण लागत कम करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सक्षम बनाता है।

एक बेहतर और अधिक लबीली पूँजी रणनीति का निर्माण फंड की लागत को अनुकूलित करने के लिए, आपकी कंपनी बोण्ड्स, बहणकीय एजेंसियों और रणनीतिक साझेदारियों सहित विकिध घरेलू और वैदिवक स्रोतों के माध्यम से अपने पूँजी मिश्रण को परिकृत कर रही है। मजबूत क्रेडिट रेटिंग और संस्थागत विश्वसनीयता के साथ, यह दृष्टिकोण उघारकर्ताओं के लिए लाभप्रदता और पुँजी उपलब्धता दोनों को बढ़ाता है। डिजिटल-प्रथम विकास के बारे में बढ़ोत्तरी

उक्त के बारे में प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की भर्मिका को समझते हुए, आपकी कंपनी एक डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इसमें नुख्य ऋण कार्यों का डिजिटलीकरण और ट्रेजरी, कानूनी, जोखिम, वसूली, लेखा परीक्षा और अनपालन के लिए कार्यप्रवाह को और अधिक राक्षम बनाना शामिल है। एनबीसीसी, नई दिल्ली में आपकी कंपनी का पूर्णतः कागज़रहित व्यवसाय केंद्र, परिचालन चपलता, पारदर्शिता और निर्माध हितधारक जुड़ाव का समर्थन करते हुए इस बदलाव का प्रतीक है।



भारत सरकार, विशेष रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एनआरडी लोक उद्यम विभाग (डीपीडी) और नीति आयोग वित्त विद्यत और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों जैसे अन्य प्रमुख निकायों को उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

हम, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आरबीआई, सेबी, एनएसई, बीएसई और अन्य नियामकों के उनके पर्यवेक्षण और सहयोग के लिए भी आभारी हैं। हमारे वैधानिक, त्रचिवीय, लागत और आंतरिक लेखा परीक्षकों को सुशासन मानकों को बनाए रखने के लिए, और हमारे क्रेडिट रेटिंग भागीदारों, एस एंड पी ग्लोबल, आईसीआरए, केयर, इंडिया रेटिंग्स, एक्यूट और ब्रिकवर्क को उनके मुल्यवान मुल्यांकन के लिए विशेष धन्यवाद ।

हमारे ग्राहको, ऋणदाताओं, शेयरधारकों, निवेशकों, राज्य सरकारों और वित्तीय भागीदारों के प्रति उनके विश्वास और सहयोग के लिए सराहना करते हैं। मैं, अपने साथी बोर्ड सदस्यों को उनके मार्गदर्शन के लिए और अपने कर्मवारियों को उनके अटूट समर्पण के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हार्दिक सम्मान सहित.

(यह वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही के रिकॉर्ड के लिए नहीं है।)

दिनांकः 7 अगस्त 2025 स्थानः नई दिल्ली

श्री प्रदीप कुनार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन: 07448576

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड इमें कृति करें: 🚷 IREDALtd 🕝 IREDALimited 🔞 iredaofficial 🐚 IREDA Ltd.

(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)

पजीकृत कार्यालय सम्प्रान्त, फेंट कप हेस्ट कोट गाल पर्पातात फेंट लोध गान नई देल्ली 11000 फान छ। 2468220-19 फैक्स ३११ -2468220-1 कोर्पोरेट कार्यालय तीसरी गांजन, अनस्य कारी गान प्रमुख नई दिल्ली 11006 फोन छ। 26712400 12 फैक्स ३११ -267 7416 व्यवसाय केंद्र: एनप्रांगाणी अभिग कोम्पनकर, अधिरा बनाक नवर II, पनट पा, रथी गाँधान गुर्वी किनवई नगर नई दिल्ली । १००३३ फोन-२ ११ -२४४४७२२४ 🥺 विवसाइट: www.iceda.ii | सीआईएन L6510@DL1993GGHD27265